



Dated: 07.09.2025

To,
Department of Corporate Services,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
C-1, G-Block, Bandra-Kurla Complex
Bandra, (E), Mumbai – 400 051

BSE Scrip Code: 543910; NSE: AVG

Subject: Newspaper Publication under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the copy of Newspaper advertisement for the publication of Notice of 16th Annual General Meeting of the Company which has been published in Pioneer (All Edition) in Hindi and English.

This is for your information and further dissemination.

Thanking you,

Yours faithfully,

For AVG Logistics Limited


Sanjay Gupta
Managing Director
DIN: 00527801



Regd. Office:
25, DDA Market, Savita Vihar,
Delhi-110092
Ph.: 8527494071

AVG LOGISTICS LIMITED

CIN No.: L60200DL2010PLC198327
E-mail: info@avglogistics.com
Website: avglogistics.com

Corporate Office: 102, 1st Floor,
Jhilmil Metro Station Complex,
Delhi-110095 Ph.: 8527291062
+91-11-22124356



Riniki Bhuyan Sharma, MD of Pride East Entertainment at the poster release ceremony of movie 'Koka Deuta Nati aru Hati- 2' in Guwahati

PROSPECT

INDIAN BANK MIGRATES TO SECURE WEB PORTAL



Public sector Indian Bank has successfully migrated its corporate website to 'www.Indianbank.Bank.In' domain, in line with the Reserve Bank of India directive, aimed at providing stronger safeguards against fraud and enhancing public confidence in digital banking solutions. The Chennai-headquartered bank has taken up the initiative under the Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) which is the exclusive registrar for this domain. According to a press release issued by the bank on Saturday, the '.Bank.In' domain is reserved exclusively for banks, and provides stronger safeguards to combat fraud, strengthen the cybersecurity framework and enhance public confidence in digital banking and help customers identify genuine banking websites. The bank has migrated to a secure domain, reaffirming its commitment to customer safety and secure digital banking solutions, the release added.

PNB SIGNS ₹21,000 CRORE MOU WITH RAJASTHAN GOVERNMENT

Punjab National Bank (PNB) on Saturday signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Rajasthan Government to extend '21,000 crore in financial support under the State's rising Rajasthan initiative. PNB MD and CEO Ashok Chandra said the bank was "delighted to partner in Rajasthan's ambitious growth story", adding that its wide presence and digital capabilities would help drive socio-economic progress. During his Jaipur visit, Chandra also distributed 2,000 loan sanction letters to women entrepreneurs at a self-help group loan distribution ceremony attended by nearly 3,000 SHG members. He urged MSMEs to leverage PNB's digital platforms for easier access to Government schemes.

AVG LOGISTICS LIMITED
Regd Office: 25, DDA Market, Savita Vihar, Delhi-110092
Corporate Office: 102, 1st Floor, Jhilimil Metro Complex Delhi-110095
CIN: L60200DL2010PLC198327; email- praveen@avglogistics.com
Website: www.avglogistics.com; Ph: 011-22124356

NOTICE

Notice is hereby given that the 16th Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled to be held on September 30, 2025 at 10:00 A.M. (IST) at Bliss and Blessings Banquet, Near Jhilimil Metro Station, Delhi-110095, and resolution set out in the notice are proposed to be passed by the members of AVG Logistics Limited ("the Company") by way of remote e-voting process ("e-voting"), pursuant to the provisions of Section 108 and all other applicable provisions, if any, of the Act, read together with Rules 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), and as amended from time to time:

The Company has engaged the services of InstaVote MUFG Intime (<https://instavote.linkintime.co.in>) as the agency to provide e-voting facility. In accordance with the MCA Circulars, members can vote through the remote e-voting process. Accordingly, the Company is pleased to provide remote e-voting facility to all its members to cast their votes electronically. Members shall update their mobile number/contact number/address/e-mail address with the relevant Depository Participant and Company at all times.

Members are requested to read the instructions in the Notes in the AGM Notice to cast their vote electronically **which will commence at 9:00 A.M. IST on Saturday, 27 September 2025 and conclude at 5:00 P.M. IST on Monday, 29 September 2025**, (the last day to cast vote electronically).

During this period, Members holding equity shares as on Tuesday, 23 September 2024 ('Cut-Off date/Record Date') may cast their vote by remote e-voting before the AGM. The remote e-voting module shall be disabled by InstaVote MUFG Intime for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off date.

Notice will be available at the Company's Website www.avglogistics.com and Stock Exchanges Website www.bseindia.com and www.nseindia.com.

The voting rights of Members shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of Shareholder/Beneficial Owner as on **September 23, 2025**.

The results of the remote evoting and voting at AGM will be announced within two (02) working days of the end of the e-voting period and will be displayed on the Company's website <https://avglogistics.com/> and will also be communicated to the Stock Exchanges, MUFG Intime India Private Limited.

In case of any queries relating to evoting, one may email to RTA of the Company at enotices@in.mpbs.mufg.com or contact on: - Tel: 022-4918 6000.

For AVG Logistics Limited

Sd/-
Mukesh Nagar
Company Secretary

Date: 06.09.2025
Place: Delhi

Adani to launch ₹6,000 crore hydro project in Bhutan

PIONEER NEWS SERVICE
■ New Delhi

Adani Power on Saturday said it has inked a pact with Bhutan's State-owned utility Druk Green Power to set up a 570MW hydro project entailing investment of ₹6,000 crore, in the Himalayan Kingdom. As per the pact, Adani Power and Druk Green Power Corp Ltd (DGPC), will initiate the the peaking run-of-river Wangchhu hydroelectric project on a BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) model. A power purchase agreement and a concession agree-

ment were signed in this regard in the presence of Prime Minister of Bhutan, Dasho Tshering Tobgay and Gautam Adani, Chairman, Adani Group, a company statement said. The Wangchhu project will see an investment of about ₹6,000 crore in setting up the power plant and related infra-structures. With the detailed project report already completed, construction work is expected to begin by the first half of 2026, and the completion is targeted within five years of ground-breaking. "The Wangchhu hydroelec-



tric project will critically meet Bhutan's peak winter demand, when hydro power generation is low. During the summer months, it would export power to India," said SB Khyalia, CEO, Adani Power. The Wangchhu is the first hydroelectric project to be taken up under an MoU signed in May 2025 between Adani Group and DGPC for jointly developing 5,000 MW of hydropower in Bhutan. Adani Group and DGPC are engaged in further discussions for future projects under this strategic partnership. Adani Power is the largest private

thermal power producer in India. DGPC is the sole generation utility of Bhutan with a current generation portfolio of a little over 2,500 MW and growing fast with Bhutan's aspirations to achieve 25,000 MW in generation capacity by 2040. Druk Holding & Investments, the commercial arm of the Royal Government of Bhutan, is DGPC's shareholder. Established in 2008 to take a lead role in developing Bhutan's hydropower resources, it has recently diversified beyond hydropower into tapping solar resources also.

Central Zoo authority conducts workshop for wildlife and zoo officials of North East



PIONEER NEWS SERVICE
■ Guwahati

The Central Zoo Authority, in collaboration with the Assam State Zoo cum Botanical Garden, successfully organised a two-day workshop for Chief Wildlife Wardens and Zoo Directors/Managers of the North-Eastern States on 4-5 September 2025 at Radisson Blu, Guwahati. The inaugural session was graced by MK Yadava, Special Chief Secretary, Government of Assam; Dr V Clement Ben, Member Secretary, Central Zoo Authority; Dr Vinay Gupta, Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) and Chief Wildlife Warden, Assam; and Dr Ashwini Kumar, Director, Assam State Zoo cum Botanical Garden. The workshop featured a series of insightful technical sessions by distinguished experts. Dr Sindura Ganapathi (PSA Fellow, Government of India) spoke on One Health and Collaborations, highlighting the importance of cross-sectional partnerships in wildlife health. Lakshminarasimha R (Director, Research and Conservation, GaiaMitra Collective Foundation) presented on Evidence-based Collection and Population Management and later on Modern Approaches to Zoo Animal Nutrition. PC Tyagi (Retd IFS, Former PCCF & CWLW, Tamil Nadu) delivered sessions on Zoo Master Planning and Species-specific Environmental Enrichment along with Dr Sulata Maity (West Bengal State Zoo Authority). Shri Hemanth Kumar (Retd. IFS, Uttar Pradesh) led a session on Disaster Management in Zoos. Healthcare and genetics were also key themes, with Padmashree Dr KK Sarma (Professor, College of Veterinary Science, Khanapara) addressing Challenges and Clinical Practices in Captive Animal Healthcare and Dr Uma Ramakrishnan (NCBS) presenting on Genetics and Genomics of Endangered Big Cats. Dr Bhaskar Choudhury

(Centre for Wildlife Rehabilitation and Conservation, Kaziranga) shared experiences on Managing Rescued Animals and Wildlife Emergencies, while Dr. Debabrata Phukon (Veterinarian, Assam State Zoo) spoke on Optimising Reptile Care through Science-based Practices. In addition, Dr. Ashwini Kumar shared insights on Best Practices in Zoo Management, and Dr. Parag Deka (Project Director, Pygmy Hog Conservation Programme) presented on Captive Breeding of the Pygmy Hog. The two-day event concluded with a working group discussion between Zoo Directors and Chief Wildlife Wardens on Sustainable Zoo Management and a valedictory address by PC Tyagi. The workshop provided a dynamic platform for the exchange of knowledge and best practices, reaffirming the commitment to sustainable zoo management, animal welfare, and wildlife conservation across Indian zoos.

UNLOCK INLAND STATES' SEAFOOD EXPORT POTENTIAL TO DIVERSIFY PORTFOLIO: FISHERIES MINISTER



PIONEER NEWS SERVICE
■ New Delhi

Fisheries Minister Rajiv Ranjan Singh on Saturday called for unlocking the export potential of inland states to diversify the country's seafood export portfolio, while urging stakeholders to boost fish productivity.

Speaking at a virtual stakeholders' consultation meeting, Singh said collective efforts were needed to increase fish productivity from 5 tonnes per hectare to 7 tonnes per hectare to remain globally competitive. The minister emphasised export market diversification, produce certification, technology integration in fish processing, cold chain infrastructure development and establishing robust traceability systems to meet global standards, an official statement said. Singh said the fisheries sector directly and indirectly supports over 80 million livelihoods in India.

Consultation workshop to address India's coal phase-down, climate goals

PIONEER NEWS SERVICE
■ New Delhi

The Ashoka Centre for a People-centric Energy Transition (ACPET), Ashoka University, will host a high-level consultation workshop on 10 September 2025 at the India International Centre, New Delhi, to examine the future of coal in India's energy mix and its linkages with national development and climate goals.

Titled "Viksit Bharat @2047 and Net Zero @2070 Trajectory - Delayed Thermal Coal Phase-Down in India", the day-long workshop will run from 10 AM to 4 PM, bringing together policymakers, researchers, industry experts and civil society representatives for in-depth deliberations on India's energy transition pathway. India has set two ambitious targets, to become a developed economy by 2047 and to achieve net zero carbon emissions by 2070. With coal currently accounting for more than 70 per cent of the country's electricity generation, striking a balance between sustaining rapid economic growth and meeting climate commitments remains a critical challenge. ACPET has been examining this question through its Energy Future's Lab, which has developed an AI and machine learning backed Coal Economy Model and Energy Chatbot.

Early insights suggest that a meaningful phase-down of thermal coal in India is unlikely before 2047 if the country is to maintain its growth trajectory while pursuing the vision of Viksit Bharat. The workshop will open with addresses from senior policymakers and energy experts. Session I will focus on the macroeconomic impacts of coal transition under Viksit Bharat and Net Zero pathways. Session II will convene a round-table on policy and action areas, covering electricity demand, coal and renewable infrastructure and welfare measures for coal-dependent communities. Expected outcomes include the sharing of ACPET's modelling insights on coal demand, electricity requirements and renewable expansion, along with evidence-based perspectives on how India could time its coal phase-down without compromising energy security and development. Participants will also discuss just transition strategies, with an emphasis on employment, reskilling and welfare for communities reliant on the coaleconomy. Distinguished speakers include Dr Anil Kumar Jain, Chairperson of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB), alongside experts from ACPET, the Central Electricity Authority, TERI, WRI, Prayas, and CEEW, among others.

Modi's next-gen GST reform: A Diwali gift that reshapes Bharat's economy



DR ASEERVATHAM ACHARY

September 3, 2025, will be remembered as a landmark day in Bharat's economic journey. The Modi Government has once again demonstrated its commitment to the welfare of the common man by delivering on its promise of a true Diwali bonanza through the announcement of bold and visionary Goods and Services Tax (GST) reforms.

After an extensive day-long deliberation attended by all members of the GST Council, significant reforms were unveiled with the clear objective of moving to a simplified two-slab rate structure of 5 percent and 18 percent. The intent behind these reforms is beyond question: to ease the burden on the common man, empower domestic industries, and strengthen Bharat's economic foundation.

Introducing such sweeping changes at a time when the global economy is under socio-economic pressures is a testament to the foresight and courage of the Modi Government.

This bold move reflects the emergence of a confident and resilient Indian economy, underlining the fact that Bharat is firmly set on the path of progress and growth. The Government has invested enormous effort to ensure that essentials such as food, agriculture, fertilizer, renewable energy, textiles, health, education, items of daily use, consumer electronics, and transportation reach the common man.

Relief for Households and Common Man

The most visible impact is on everyday essentials. Products like Ultra-High Temperature (UHT) milk, Pre-packaged and labelled chena or paneer, all the Indian Breads will see NIL rates.

Food and FMCG items such as dairy products, packaged snacks, soaps, shampoos, toothbrushes, toiletries and bicycles now attract just 5 per cent GST, directly reducing household expenses. Health care receives a huge boost with life-saving drugs, diagnostic kits, and medical devices either exempted or moved to the 5 percent slab. Education becomes

more affordable with zero GST on exercise books, pencils, erasers, and other basic learning materials. For millions of families, this means direct savings and higher disposable income.

Healthcare and Insurance Made Affordable

In a landmark decision, the Modi Government has extended massive relief in the healthcare and insurance sectors through GST rationalisation. GST on 33 life-saving drugs and medicines has been completely removed, dropping from 12 per cent to 0 per cent, while 3 critical drugs used in the treatment of cancer, rare diseases, and other chronic ailments have also been exempted from the existing 5 per cent. Several other essential medicines have seen their GST rate reduced from 12 per cent to just 5 per cent, making healthcare more accessible and affordable for millions.

In parallel, the Government has taken a historic step to make insurance truly affordable for the common man by exempting all individual life insurance policies whether term life, ULIP, or endowment from GST, along with reinsurance. Similarly, all individual health insurance products, including family floater plans and senior citizen policies, now carry zero GST. These reforms not only ease the burden of medical expenses but also expand financial protection, strengthening the vision of "Insurance for All by 2047."

Aspirational Goods Made Affordable

A key highlight of the reforms is the reduction in rates for aspirational goods. Small cars, two-wheelers, televisions, and dishwashers have all moved from 28 percent to 18 percent. This means passenger vehicles are now cheaper by ₹50,000 to ₹1 lakh depending on the model. Motorcycle prices have dropped by ₹5,000 to ₹15,000. Auto experts project a 10 percent rise in small car sales this financial year. Consumer durables like ACs and large TVs are now more affordable, boosting demand and expanding the domestic electronics market.

Agriculture and Rural Bharat Empowered

For farmers, the benefits are unprecedented. Tractors have moved from 12 percent to 5 percent, tires and parts from 18 percent to 5 percent. Harvesters, threshers, sprinklers, drip irrigation equipment, poultry and bee-keeping machines, and bio-pesticides are now taxed at just 5 percent. Fertilizer inputs have been corrected under the inverted duty structure, boosting domestic production and reducing import depen-

dence. These changes will reduce costs for farmers, enhance productivity, and fuel rural demand.

Benefits of GST Rationalisation for MSMEs

The next-generation GST reforms provide a direct boost to India's MSMEs by lowering costs, improving liquidity, and enhancing competitiveness. With GST rates on key raw materials like paper, packaging, textiles, leather, wood, and handicrafts reduced from 12-18 per cent to just 5 per cent, small businesses now face lower input costs, making their products more competitive both in domestic and international markets.

The correction of inverted duty structures in textiles, food processing, and other MSME-intensive sectors will smoothen refund procedures and ease cash flow pressures that often hinder small manufacturers. The removal of the value threshold for GST refunds on low-value e-commerce consignments ensures that even small exporters can claim timely refunds, unlocking working capital and allowing them to scale their businesses with confidence.

Simpler compliance and faster refunds reduce working capital blockages, freeing resources for expansion, innovation, and job creation. With GST on delivery vans and trucks reduced from 28 per cent to 18 per cent, logistics and freight costs for MSMEs are significantly lowered, strengthening supply chains and improving efficiency.

Digitalisation and Compliance Ease

Equally transformative are the structural reforms in compliance. Small traders, startups, and MSMEs will now face less paperwork and lower compliance costs, thanks to the integration of GST filings with the Government's digital platforms. AI-driven invoice matching, faceless assessments and automatic refunds will reduce harassment, plug leakages, and improve ease of doing business. The threshold for GST registration has been raised, freeing lakhs of small traders and street vendors from cumbersome filings. These measures directly support the Government's goal of "Minimum Government, Maximum Governance."

States Empowered, Cooperative Federalism Strengthened

The reforms are also a triumph of cooperative federalism. For the first time, every state supported the GST Council's recommendations, cutting across political divides. This consensus underlines the political

maturity and strong leadership of Prime Minister Modi, who has united diverse states under a shared vision of growth.

Global Signal of Confidence

At a time when advanced economies are facing stagflation, Bharat has chosen to unleash domestic demand, empower households, and boost industry through tax rationalisation. Global investors view this as a bold structural reform that improves competitiveness and simplifies the business environment.

Ratings agencies and global trade bodies are already hailing Bharat's reform as a model for emerging economies. The move sends a clear signal that Bharat under Modi is determined to stay on the path of high growth, innovation, and resilience.

Congress's Lost Decade, VAT Confusion, and Modi's Decisive Leadership

It must not be forgotten that GST was first proposed in 2006 by the UPA, but for nearly a decade, the Congress-led Government failed to build consensus, draft a workable framework, or show the political will to implement it. Instead, they imposed a chaotic VAT system where every state had its own tax rates, creating a maze of multiple levies, cascading taxation, and corruption. Goods would get taxed at checkpoints across states, trucks wasted hours at inter-state borders, and ordinary consumers ended up paying higher prices because of double taxation.

VAT became a symbol of inefficiency and red tape. It was only under Prime Minister Modi's leadership that GST became a reality in 2017, transforming Bharat into a unified market. Where the UPA drowned GST in indecision, Prime Minister Modi built consensus with all states and delivered "One Nation, One Tax."

Today, Modi has gone even further - implementing the most far-reaching reforms in GST's history, simplifying its structure, empowering every sector of the economy, and bringing relief to every household. The contrast is stark: where Congress delayed, Modi delivered; where Congress created confusion, Modi created clarity; where Congress sowed division, Modi built consensus.

The writer is a former Civil Servant and presently the National Coordinator for Digital Library, Library & Documentation, BJP

